



Visit

[Dwarkadheeshvastu.com](http://Dwarkadheeshvastu.com)

For

**FREE** Vastu Consultancy, Music, Epics, Devotional Videos  
Educational Books, Educational Videos, Wallpapers

-----  
\*\*\*\*  
All Music is also available in CD format. CD Cover can also be print with your Firm Name

-----  
\*\*\*\*  
We also provide this whole Music and Data in PENDRIVE and EXTERNAL HARD DISK.

Contact : Ankit Mishra ( +91-8010381364, [dwarkadheeshvastu@gmail.com](mailto:dwarkadheeshvastu@gmail.com) )

॥ श्रीराम ॥  
**श्री हनुमान चालीसा**  
विशि'ट संस्करण

॥ श्रीहनूमते नमः ॥

## श्रीहनुमानचालीसा

दोहा

श्रीगुरु चरन सरोज रज  
निज मनु मुकुरु सुधारि ।  
बरनउँ रघुबर बिमल जसु  
जो दायकु फल चारि ॥

बुद्धिहीन तनु जानिके,  
सुमिरौं पवन-कुमार ।  
बल बुधि बिद्या देहु मोहिं,  
हरहु कलेस बिकार ॥

चौपाई

जय हनुमान ज्ञान गुन सागर ।  
जय कपीस तिहुँ लोक उजागर ॥

राम दूत अतुलित बल धामा ।  
अंजनि-पुत्र पवनसुत नामा ॥  
महाबीर बिक्रम बजरंगी ।  
कुमति निवार सुमति के संगी ॥  
कंचन बरन बिराज सुबेसा ।  
कानन कुंडल कुंचित केसा ॥

हाथ बज्र औ ध्वजा बिराजै ।  
 काँधे मूँज जनेऊ साजै ॥  
 संकर सुवन केसरीनंदन ।  
 तेज प्रताप महा जग बंदन ॥  
 बिद्यावान गुनी अति चातुर ।  
 राम काज करिबे को आतुर ॥  
 प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया ।

राम लषन सीता मन बसिया ॥

सूक्ष्म रूप धरि सियहिं दिखावा ।

बिकट रूप धरि लंक जरावा ॥

भीम रूप धरि असुर सँहारे ।

रामचंद्र के काज सँवारे ॥

लाय सजीवन लखन जियाये ।

श्रीरघुबीर हरषि उर लाये ॥

रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई ।  
 तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई ॥  
 सहस बदन तुम्हरो जस गावैं ।  
 अस कहि श्रीपति कंठ लगावैं ॥  
 सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा ।  
 नारद सारद सहित अहीसा ॥  
 जम कुबेर दिगपाल जहाँ ते ।

कबि कोबिद कहि सके कहाँ ते ॥  
 तुम उपकार सुग्रीवहिं कीन्हा ।  
 राम मिलाय राज पद दीन्हा ॥  
 तुम्हरो मंत्र बिभीषन माना ।  
 लंकेस्वर भए सब जग जाना ॥  
 जुग सहस्र जोजन पर भानू ।  
 लील्यो ताहि मधुर फल जानू ॥



प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माहीं ।  
 जलधि लाँघि गये अचरज नाहीं ॥  
 दुर्गम काज जगत के जेते ।  
 सुगम अनुग्रह तुम्हरे तेते ॥  
 राम दुआरे तुम रखवारे ।  
 होत न आज्ञा बिनु पैसारे ॥  
 सब सुख लहै तुम्हारी सरना ।

तुम रच्छक काहू को डर ना ॥  
 आपन तेज सम्हारो आपै ।  
 तीनों लोक हाँक तें काँपै ॥  
 भूत पिसाच निकट नहिँ आवै ।  
 महाबीर जब नाम सुनावै ॥  
 नासै रोग हरै सब पीरा ।  
 जपत निरंतर हनुमत बीरा ॥

संकट तें हनुमान छुड़ावै ।  
 मन क्रम बचन ध्यान जो लावै ॥  
 सब पर राम तपस्वी राजा ।  
 तिन के काज सकल तुम साजा ॥  
 और मनोरथ जो कोइ लावै ।  
 सोइ अमित जीवन फल पावै ॥  
 चारों जुग परताप तुम्हारा ।

है परसिद्ध जगत उजियारा ॥  
 साधु संत के तुम रखवारे ।  
 असुर निकंदन राम दुलारे ॥  
 अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता ।  
 अस बर दीन जानकी माता ॥  
 राम रसायन तुम्हरे पासा ।  
 सदा रहो रघुपति के दासा ॥

तुम्हरे भजन राम को पावै ।  
 जनम जनम के दुख बिसरावै ॥  
 अंत काल रघुबर पुर जाई ।  
 जहाँ जन्म हरि-भक्त कहाई ॥  
 और देवता चित्त न धरई ।  
 हनुमत सेइ सर्व सुख करई ॥  
 संकट कटै मिटै सब पीरा ।

जो सुमिरै हनुमत बलबीरा ॥  
 जै जै जै हनुमान गोसाईं ।  
 कृपा करहु गुरु देव की नाई ॥  
 जो सत बार पाठ कर कोई ।  
 छूटहि बंदि महा सुख होई ॥  
 जो यह पढ़ै हनुमान चलीसा ।  
 होय सिद्धि साखी गौरीसा ॥

तुलसीदास सदा हरि चेरा ।  
कीजै नाथ हृदय महँ डेरा ॥

दोहा

पवनतनय संकट हरन,  
मंगल मूर्ति रूप ।  
राम लषन सीता सहित,  
हृदय बसहु सुर भूप ॥  
॥ इति ॥

# संकटमोचन हनुमानाष्टक

मत्तगयन्द छन्द

बाल समय रबि भक्षि लियो तब  
तीनहुँ लोक भयो अँधियारो ।  
ताहि सों त्रास भयो जग को  
यह संकट काहु सों जात न टारो ॥



देवन आनि करी बिनती तब  
 छाँड़ि दियो रबि कष्ट निवारो ।  
 को नहिं जानत है जगमें कपि  
 संकटमोचन नाम तिहारो ॥ १ ॥  
 बालि की त्रास कपीस बसै गिरि  
 जात महाप्रभु पंथ निहारो ।  
 चौंकि महा मुनि साप दियो तब

चाहिय कौन बिचार बिचारो ॥  
 कै द्विज रूप लिवाय महाप्रभु  
 सो तुम दास के सोक निवारो । को०-२ ॥  
 अंगद के सँग लेन गये सिय  
 खोज कपीस यह बैन उचारो ।  
 जीवत ना बचिहौ हम सो जु  
 बिना सुधि लाए इहाँ पगु धारो ॥

हेरि थके तट सिंधु सबै तब लाय  
 सिया-सुधि प्रान उबारो । को०-३ ॥  
 रावन त्रास दई सिय को सब  
 राक्षसि सों कहि सोक निवारो ।  
 ताहि समय हनुमान महाप्रभु  
 जाय महा रजनीचर मारो ॥  
 चाहत सीय असोक सों आगि सु

द्वै प्रभु मुद्रिका सोक निवारो । को०-४ ॥

बान लग्यो उर लछिमन के तब

प्राण तजे सुत रावन मारो ।

लै गृह बैद्य सुषेन समेत

तबै गिरि द्रोण सु बीर उपारो ॥

आनि सजीवन हाथ दई तब

लछिमन के तुम प्राण उबारो । को०-५ ॥

रावन जुद्ध अजान कियो तब  
 नाग किं फाँस सबै सिर डारो ।  
 श्रीरघुनाथ समेत सबै दल  
 मोह भयो यह संकट भारो ॥  
 आनि खगेस तबै हनुमान जु  
 बंधन काटि सुत्रास निवारो । को०-६ ॥  
 बंधु समेत जबै अहिरावन

लै रघुनाथ पताल सिधारो ।  
 देबिहिं पूजि भली बिधि सों बलि  
 देउ सबै मिलि मंत्र बिचारो ॥  
 जाय सहाय भयो तब ही  
 अहिरावन सैन्य समेत सँहारो । को०-७ ॥  
 काज किये बड़ देवन के तुम  
 बीर महाप्रभु देखि बिचारो ।

कौन सो संकट मोर गरीब को  
जो तुमसों नहिं जात है टारो ॥

बेगि हरो हनुमान महाप्रभु  
जो कछु संकट होय हमारो । को०-८ ॥

दोहा— लाल देह लाली लसे, अरु धरि लाल लँगूर ।  
बज्र देह दानव दलन, जय जय जय कपि सूर ॥

॥ इति संकटमोचन हनुमानाष्टक सम्पूर्ण ॥

## श्रीहनुमत्-स्तवन

सो०— प्रनवउं पवनकुमार खल बन पावक ग्यानघन ।  
जासु हृदय आगार बसहिं राम सर चाप धर ॥  
अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं  
दनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यम् ।  
सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं  
रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि ॥  
गोष्पदीकृतवारीशं मशकीकृतराक्षसम् ।  
रामायणमहामालारत्नं वन्देऽनिलात्मजम् ॥  
अञ्जनानन्दनं वीरं जानकीशोकनाशनम् ।  
कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम् ॥



उल्लङ्घ्य सिन्धोः सलिलं सलीलं  
 यः शोकवह्निं जनकात्मजायाः ।  
 आदाय तेनैव ददाह लङ्कां  
 नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयम् ॥  
 मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् ।  
 वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये ॥  
 आञ्जनेयमतिपाटलाननं काञ्चनाद्रिकमनीयविग्रहम् ।  
 पारिजाततरुमूलवासिनं भावयामि पवमाननन्दनम् ॥  
 यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिम् ।  
 वाष्पवारिपरिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम् ॥

## श्रीहनुमान्जीकी आरती

★  
★  
★ आरती कीजै हनुमान लला की। दुष्टदलन रघुनाथ कला की ॥ टेक ॥  
★ जाके बल से गिरिवर काँपै। रोग-दोष जाके निकट न झाँपै ॥ १ ॥  
★ अंजनि पुत्र महा बलदाई। संतन के प्रभु सदा सहाई ॥ २ ॥  
★ दे बीरा रघुनाथ पठाये। लंका जारि सीय सुधि लाये ॥ ३ ॥  
★ लंका सो कोट समुद्र सी खाई। जात पवनसुत बार न लाई ॥ ४ ॥  
★ लंका जारि असुर संहारे। सियारामजीके काज सँवारे ॥ ५ ॥  
★ लक्ष्मण मूर्छित पड़े सकारे। आनि सजीवन प्रान उबारे ॥ ६ ॥  
★ पैठि पताल तोरि जम-कारे। अहिरावन की भुजा उखारे ॥ ७ ॥  
★ बायें भुजा असुर दल मारे। दहिने भुजा संतजन तारे ॥ ८ ॥  
★ सुर नर मुनि आरती उतारे। जै जै जै हनुमान उचारे ॥ ९ ॥  
★ कंचन थार कपूर लौ छाई। आरति करत अंजना माई ॥ १० ॥  
★ जो हनुमान ( जी ) की आरति गावै। बसि बैकुंठ परमपद पावै ॥ ११ ॥  
★

## श्रीरामवन्दना

आपदामपहतरिं दातारं सर्वसम्पदाम् ।

लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम् ॥

रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे ।

रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः ॥

नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं

सीतासमारोपितवामभागम् ।

पाणौ

महासायकचारुचापं

नमामि

रामं

रघुवंशनाथम् ॥

## श्रीराम-स्तुति

श्रीरामचन्द्र कृपालु भजु मन हरण भवभय दारुणं ।  
नवकंज-लोचन, कंज-मुख, कर-कंज पद कंजारुणं ॥  
कंदर्प अगणित अमित छबि, नवनील-नीरद सुंदरं ।  
पट पीत मानहु तड़ित रुचि शुचि नौमि जनक सुतावरं ॥  
भजु दीनबंधु दिनेश दानव-दैत्यवंश-निकंदनं ।  
रघुनंद आनंदकंद कोशलचंद दशरथ-नंदनं ॥  
सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उदारु अंग बिभूषणं ।  
आजानुभुज शर-चाप-धर, संग्राम-जित-खरदूषणं ॥

इति वदति तुलसीदास शंकर-शेष-मुनि-मन-रंजनं ।  
 मम हृदय-कंज निवास कुरु, कामादि खल-दल-गंजनं ॥  
 मनु जाहिं राचेउ मिलिहि सो बरु सहज सुंदर साँवरो ।  
 करुना निधान सुजान सीलु सनेहु जानत रावरो ॥  
 एहि भाँति गौरि असीस सुनि सिय सहित हियँ हरषीं अली ।  
 तुलसी भवानिहि पूजि पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली ॥  
 सो०— जानि गौरि अनुकूल सिय हिय हरषु न जाइ कहि ।  
 मंजुल मंगल मूल बाम अंग फरकन लगे ॥

॥ सियावर रामचन्द्रकी जय ॥

## श्रीरामावतार

भए प्रगट कृपाला दीनदयाला कौसल्या हितकारी ।  
हरषित महतारी मुनि मन हारी अद्भुत रूप बिचारी ॥  
लोचन अभिरामा तनु घनस्यामा निज आयुध भुज चारी ।  
भूषन बनमाला नयन बिसाला सोभासिंधु खरारी ॥  
कह दुइ कर जोरी अस्तुति तोरी केहि बिधि करौं अनंता ।  
माया गुन ग्यानातीत अमाना बेद पुरान भनंता ॥  
करुना सुखसागर सब गुन आगर जेहि गावहिं श्रुति संता ।  
सो मम हित लागी जन अनुरागी भयउ प्रगट श्रीकंता ॥

ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रति बेद कहै ।  
 मम उर सो बासी यह उपहासी सुनत धीर मति थिर न रहै ॥  
 उपजा जब ग्याना प्रभु मुसुकाना चरित बहुत बिधि कीन्ह चहै ।  
 कहि कथा सुहाई मातु बुझाई जेहि प्रकार सुत प्रेम लहै ॥  
 माता पुनि बोली सो मति डोली तजहु तात यह रूपा ।  
 कीजै सिसुलीला अति प्रियसीला यह सुख परम अनूपा ॥  
 सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना होइ बालक सुरभूपा ।  
 यह चरित जे गावहिं हरिपद पावहिं ते न परहिं भवकूपा ॥

# शिवपञ्चाक्षरस्तोत्रम्

नागेन्द्रहाराय

त्रिलोचनाय

भस्माङ्गरागाय

महेश्वराय ।

नित्याय

शुद्धाय

दिगम्बराय

तस्मै 'न' काराय नमः शिवाय ॥

मन्दाकिनीसलिलचन्दनचर्चिताय

नन्दीश्वरप्रमथनाथमहेश्वराय ।

मन्दारपुष्पबहुपुष्पसुपूजिताय

तस्मै 'म' काराय नमः शिवाय ॥

शिवाय

गौरीवदनाब्जवृन्द-

सूर्याय

दक्षाध्वरनाशकाय ।

श्रीनीलकण्ठाय

वृषध्वजाय

तस्मै 'शि' काराय नमः शिवाय ॥



वसिष्ठकुम्भोद्भवगौतमार्य-

मुनीन्द्रदेवार्चितशेखराय ।

चन्द्रार्कवैश्वानरलोचनाय

तस्मै 'व' काराय नमः शिवाय ॥

य (क्ष) ज्ञस्वरूपाय जटाधराय

पिनाकहस्ताय सनातनाय ।

दिव्याय देवाय दिगम्बराय

तस्मै 'य' काराय नमः शिवाय ॥

पञ्चाक्षरमिदं पुण्यं यः पठेच्छिवसंनिधौ ।

शिवलोकमवाप्नोति शिवेन सह मोदते ॥

॥ इति ॥